

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- खावाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण 2022-23 में भारत में सोने का आयात 24.15 प्रतिशत घटकर 35 अरब डॉलर रह गया। लेकिन चांदी का आयात पिछले वित्त वर्ष के दौरान 6.12 प्रतिशत बढ़कर 5.29 अरब डॉलर हो गया।
- इस्पात मंत्रालय के पास उपलब्ध अनंतिम संख्या के अनुसार, अप्रैल में भारत का इस्पात निर्यात 13 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल में तैयार इस्पात का निर्यात 0.855 मिलियन टन हुआ है।
- इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन चाहता है कि विदेश व्यापार महानिदेशक इस साल 78 आवेदकों को आवंटित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात से विशेष सोने के आयात कोटा को खत्म कर दें और योग्य कारोबारियों से नए आवेदन मांगें।
- दस वर्षों में भारत की हरित ऊर्जा हिस्सेदारी 12.4% बढ़ी है और कोयला आधारित बिजली क्षमता में 9% की गिरावट हुई है: काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस।
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के मासिक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व स्तर पर तेल की मांग 2.33 मिलियन बैरल प्रति दिन या 2.3% बढ़ जाएगी।
- उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के तेल आयात में तेल उत्पादक कार्टेल ओपेक की हिस्सेदारी अप्रैल में सबसे कम 46 प्रतिशत तक कम हो गई, क्योंकि सस्ते रूसी तेल की खरीद अधिकतम रही है।
- रबी बाजार सीजन 2023-24 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद 8 मई 2023 को 249.58 लाख टन तक पहुंच गई।
- वित्त मंत्रालय ने टैरिफ दर कोटा प्रणाली के तहत कच्चे सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकरण की छूट की घोषणा की है। यह छूट 11 मई से 30 जून, 2023 तक प्रभावी होगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ दर कोटा लाइसेंस रखने वाले आयातकों पर विशेष रूप से लागू होगी।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.05.23	11.05.23	बदलाव (%)
जीरा	46560.00	47710.00	2.47%
स्टील	44480.00	45570.00	2.45%
धनिया	6712.00	6780.00	1.01%
ग्वारगम	11445.00	11469.00	0.21%
हल्दी	7430.00	7436.00	0.08%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.05.23	11.05.23	बदलाव (%)
सीसेमसीड	17050.00	16025.00	-6.01%
कॉटनसीडऑयलकेक	2826.00	2681.00	-5.13%
जौ	2157.00	2087.00	-3.25%
धान	4438.00	4332.00	-2.39%
कैस्टर ऑयल	1238.00	1217.00	-1.70%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.05.23	11.05.23	बदलाव (%)
सोना एम	60648.00	61069.00	0.69%
नेचुरल गैस	192.30	193.40	0.57%
सोना	61074.00	61312.00	0.39%
सोना गिनी	48794.00	48980.00	0.38%
सोना पेटल	6104.00	6123.00	0.31%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.05.23	11.05.23	बदलाव (%)
निकल	2081.70	1974.00	-5.17%
तांबा	741.35	722.45	-2.55%
एल्युमीनियम	207.7	204.6	-1.49%
मेंथाऑयल	982.1	971.2	-1.11%

साप्ताहिक समीक्षा

कमोडिटीज में लगातार गिरावट से सीआरबी इंडेक्स 290 के स्तर से नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स में गिरावट पर रोक लग गई और पिछले सप्ताह मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। प्रमुख मुद्राओं के समूह के मुकाबले डॉलर 1 मई के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, हाल ही में अमेरिकी बेरोजगार दावों के आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए मजबूत सहारा प्रदान किया लेकिन साल के अंत में दरों में कटौती की उम्मीदों को बढ़ावा नहीं दिया। सर्राफा में, सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी जारी रही जबकि चांदी की कीमतों में उच्च स्तर से भारी गिरावट देखी गई। अमेरिकी आर्थिक विकास के धीमा होने की चिंता से भी हाल के सप्ताहों में सोने की सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ावा मिला, क्योंकि देश उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों से जूझ रहा है। फंड ने हाल ही में चेतावनी दी है कि अमेरिका इस साल हल्की मंदी का सामना कर रहा है। चांदी की कीमतें साप्ताहिक गिरावट के साथ 77248 से 72861 के स्तर पर आ गई। ऊर्जा काउंटर में, कच्चे तेल की कीमतों में तीन सप्ताह की गिरावट के बाद उछाल दर्ज की गई जबकि नेचुरल गैस की कीमतें तेजी के रूझान के साथ एक दायरे में रही। अमेरिका में गैस भंडार में बढ़ोतरी के कारण बढ़त सीमित रही। एनर्जी इंफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अमेरिकी नेचुरल गैस भंडार में 78 बिलियन क्यूबिक फीट की वृद्धि हुई है, जो पहले से ही अधिक सप्लाई वाले बाजार में अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी है, जबकि कीमतों में तेजी के लिए भंडार में कम वृद्धि और अधिक मांग की जरूरत है। कमजोर आंकड़ों और डॉलर इंडेक्स में उछाल के कारण बेस मेटल की कीमतों में गिरावट आई। प्रमुख आयातक चीन में कमजोर मांग के संकेतों के बीच तांबे की कीमतों में गिरावट हुई। रियल एस्टेट और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार कमजोरी के बीच देश में तांबे के शिपमेंट में पिछले साल की तुलना में लगभग 13% की गिरावट के साथ अप्रैल में चीनी आयात उम्मीद से कम हुआ। तेल की कीमतें गुरुवार को लगभग 2% गिरकर एक सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई, क्योंकि अमेरिकी ऋण सीमा पर राजनीतिक गतिरोध ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता में मंदी की स्थिति पैदा कर दी, जबकि अमेरिकी बेरोजगार दावों और कमजोर चीनी आर्थिक आंकड़ों का भी दबाव पड़ा।

कृषि कमोडिटीज में, अरंडी की कीमतों में गिरावट देखी गई। वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतों में कमजोरी और कमजोर निर्यात मांग के कारण कपास और कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में अधिक गिरावट हुई। ग्वारगम की कीमतों में हल्की तेजी रही और ग्वारसीड की कीमतें मामूली गिरावट के साथ बंद हुईं। साल 2023 में मौसम के दौरान अलनीनो मौसम की घटना की प्रबल संभावनाएं होने से सूखे को लेकर बढ़ती चिंता के कारण ग्वार कॉम्प्लेक्स में नयी खरीदारी शुरू हो गई है। मसालों में, जीरा की कीमतों में तेजी जारी रही। हल्दी भी बढ़कर बंद हुई जबकि धनिया की कीमतें कुछ कमजोर रूझान के साथ एक दायरे में रही। हाल की बारिश के कारण महाराष्ट्र में फसल के नुकसान की खबरों पर पोर्टफोलियो में हल्दी के रंग में बढ़ोतरी हुई। सामान्य से कम आवक के साथ बढ़ी हुई निर्यात मांग के कारण खरीददारी को बढ़ावा मिला। वर्ष 2022-23 में हल्दी का उत्पादन पहले से ही 7%-10% कम है और मौसम की घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं के कारण आगामी सीजन में अधिक गिरावट होने की संभावना है। फसल की चिंता के चलते साल 2023 में जीरे की कीमतों में 90 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है। बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की कमी है क्योंकि हाल ही में राजस्थान और गुजरात में हुई बारिश के कारण जीरे की फसल के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	05.05.2023	11.05.2023	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	2,151.00	2,083.35	-3.15%
चना	दिल्ली	5,106.15	5,103.00	-0.06%
धनिया	कोटा	6,712.65	6,783.20	1.05%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	886.00	889.25	0.37%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,452.80	1,448.75	-0.28%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,746.25	5,725.50	-0.36%
ग्वारगम	जोधपुर	11,614.70	11,677.05	0.54%
जीरा	ऊझा	45,359.20	48,244.20	6.36%
सरसों	जयपुर	5,370.20	5,269.80	-1.87%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	977.50	965.00	-1.28%
सोयाबीन	इंदौर	5,511.00	5,454.25	-1.03%
हल्दी	निजामाबाद	7,041.90	7,170.10	1.82%
गेहूं	दिल्ली	2,300.40	2,327.75	1.19%
कॉटन	कड़ी	29,472.70	29,162.00	-1.05%
कॉटनऑयलसीडकेक अकोला		2,851.65	2,789.65	-2.17%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	05.05.2023	11.05.2023	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2318.50	2211.00	-4.64%
तांबा	LME	नकद	8581.50	8163.50	-4.87%
लेड	LME	नकद	2117.50	2107.50	-0.47%
निकल	LME	नकद	24531.00	21780.00	-11.21%
जिंक	LME	नकद	2686.50	2548.00	-5.16%
सोना	COMEX	जून	2024.80	2020.50	-0.21%
चांदी	COMEX	जुलाई	25.93	24.42	-5.81%
लाइट क्रूड	NYMEX	जून	71.34	70.87	-0.66%
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	2.14	2.19	2.48%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	05.05.2023	11.05.2023	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	14.69	14.36	-2.25%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	54.09	51.85	-4.14%
कॉटन	ICE	जुलाई	82.13	80.76	-1.67%
सीपीओ	BMD	जुलाई	3,601.00	3,709.00	3.00%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	04.05.2023 क्वांटिटी	11.05.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	550	550	0
कैस्टर सीड	मी.टन	4067	5976	1909
चना	मी.टन	5824	6706	882
धनिया	मी.टन	14768	15495	727
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	15601	15848	247
ग्वारगम	मी.टन	22942	22783	-159
ग्वारसीड	मी.टन	42	123	81
जीरा	मी.टन	6343	6789	446
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉग	मी.टन	1933	1554	-379
हल्दी	मी.टन	936	955	19

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	04.05.2023 क्वांटिटी	11.05.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	513	77	-436
तांबा	मी.टन	596350	360430	-235920
सोना	किग्रा	325	325	0
सोना मिनी	किग्रा	2848	2848	0
सोना गिनी	किग्रा	51500	46600	-4900
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	142554	149886	7332
चांदी एम	किग्रा	40627	40567	-60
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 05.05.2023	स्टॉक की स्थिति 11.05.2023	अंतर
एल्युमीनियम	561450	569975	8525.00
तांबा	71675	76625	4950.00
निकल	39912	39252	-660.00
लेड	32600	32900	300.00
जिंक	51225	49350	-1875.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जून	48165.00	14.03.23	तेजी	32000.00	46250.00	-	46200.00
NCDEX	हल्दी	जून	7570.00	06.04.23	तेजी	7035.00	7440.00	-	7400.00
NCDEX	ग्वारसीड	जून	5707.00	29.03.23	मंदी	5650.00	-	5880.00	5900.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जून	6023.00	26.04.23	मंदी	6120.00	-	6170.00	6200.00
NCDEX	स्टील लांग	जून	45550.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	47200.00	47300.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जून	2700.00	11.04.23	मंदी	2800.00	-	2890.00	2900.00
MCX	मेंथा ऑयल	मई	955.80	14.03.23	मंदी	1015.00	-	985.00	990.00
MCX	बुलडेक्स	मई	16462.00	11.05.23	तेजी	16600.00	-	16880.00	16900.00
MCX	चांदी	जुलाई	73808.00	11.05.23	तेजी	75000.00	-	78300.00	78500.00
MCX	सोना	जून	60892.00	11.05.23	तेजी	61200.00	-	61850.00	61900.00
MCX	मेटलडेक्स	मई	16564.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	16000.00	17600.00	-
MCX	तांबा	मई	729.20	19.04.23	मंदी	775.00	-	761.00	762.00
MCX	लेड	मई	183.75	20.04.23	साइडवेज	185.00	180.00	190.00	-
MCX	जिंक	मई	230.60	19.04.23	मंदी	252.00	-	258.50	260.00
MCX	एल्युमिनियम	मई	205.95	25.04.23	मंदी	210.00	-	212.00	213.00
MCX	कच्चा तेल	मई	5843.00	19.04.23	मंदी	6500.00	-	6370.00	6400.00
MCX	नेचुरल गैस	मई	179.60	30.03.23	साइडवेज	177.00	160.00	200.00	-

*11/05/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पंजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राकृतिक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

सोना मिनी (मई) एमसीएक्स



सोना मिनी (मई) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 61755.00

निचला स्तर: 55150.00

एमसीएक्स में सोना मिनी (मई) कॉन्ट्रैक्ट 11 मई 2023 को 60886.00 रूप बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 60602.59 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 48.41 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

61900.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 59000.00 रूप के टारगेट के लिए 61000.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

ग्वारसीड (जून) एनसीडीईएक्स



ग्वारसीड (जून) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6600.00

निचला स्तर: 5431.00

एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड (जून) कॉन्ट्रैक्ट 11 मई 2023 को 5707.00 रूप बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5706.01 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 57.355 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5400.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 6000.00 रूप के टारगेट के लिए 5600.00 रूप के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

नेचुरल गैस मिनी (मई) एमसीएक्स



नेचुरल गैस मिनी (मई) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 249.80

निचला स्तर: 168.30

एमसीएक्स में नेचुरल गैस मिनी (मई) कॉन्ट्रैक्ट 11 मई 2023 को 179.80 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 187.23 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 38.421 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

200.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 165.00 रूप के टारगेट के लिए 189.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

महाराष्ट्र में फसल खराब होने की रिपोर्ट के कारण पिछले सप्ताह हल्दी (जून) वायदा की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। बेमौसम बारिश के कारण आवक में तेजी से गिरावट हुई जिससे कीमतों को समर्थन मिला। आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुझान रहने की संभावना है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण हल्दी में बढ़त जारी रहने की संभावना है क्योंकि किसान बेहतर मूल्य की प्राप्ति की उम्मीद में आवक जारी करने के इच्छुक नहीं हैं। जुलाई-अगस्त 23 के दौरान अलनीनो की बढ़ती संभावनाओं को लेकर चिंता से भी कीमतों में मजबूती को समर्थन मिलने की संभावना है। वर्ष 2022-23 में हल्दी का उत्पादन पहले से ही 7% -10% कम है और मौसम की चिंताओं के कारण आगामी सीजन में अधिक गिरावट होने की संभावना है। हल्दी का रकबा अन्य खीफ फसलों की ओर स्थानांतरित हो सकता है जिससे उत्पादन में गिरावट आएगी। लेकिन भारी स्टॉक अत्यधिक बढ़त को सीमित कर सकते हैं। हल्दी की कीमतें 7400-8000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

जीरा (जून) वायदा की कीमतों में अस्थिरता रहने की संभावना है क्योंकि उच्च स्तर पर कुछ मुनाफावसूली देखी जा सकती है क्योंकि छोटे व्यापारी गुजरात और राजस्थान में जीरे की मौसमी आपूर्ति में वृद्धि की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रहे हैं। इस स्तर पर निर्यात मांग भी धीमी हो गई है जिससे कीमतों में सुधार हो सकता है। कम कैरीओवर स्टॉक और बाजार में सामान्य से कम आवक के कारण प्रमुख रुझान अभी भी तेज है। राजस्थान और गुजरात में हाल ही में हुई बारिश के बाद नई फसल की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। जीरा वायदा की कीमतों के 42000-51000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति में वृद्धि के कारण धनिया वायदा (जून) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। पूरे भारत में धनिया का कुल उत्पादन 8%-10% बढ़ने का अनुमान है जो आने वाले हफ्तों में आपूर्ति को पर्याप्त बनाए रखेगा। लेकिन गिरावट सीमित होने की संभावना है क्योंकि कीमतें कई साल के निचले स्तर पर चल रही हैं और स्टॉकिस्ट गिरावट पर खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। धनिया (जून) वायदा की कीमतें 6500-7300 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

अन्य कमोडिटीज

हाजिर बाजार में आपूर्ति कम होने से कपास की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 सीजन के लिए कपास उत्पादन के अनुमान को 465,000 गांठ घटाकर 29.8 मिलियन गांठ कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा में उत्पादन घटने की उम्मीद है। कपास उत्पादन का नवीनतम अनुमान 2008-09 सीजन के बाद सबसे कम है जो 29.0 मिलियन गांठ था। वर्ष 2023 में अलनीनो मौसम की घटना की बढ़ती संभावनाओं के कारण आगामी उत्पादन को लेकर बढ़ती चिंता एक अन्य कारक है जिससे कपास की कीमतों की गिरावट पर रोक लग सकती है। एमसीएक्स पर कॉटन (जून) की कीमतों के 61000 -63000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है जबकि कपास (अप्रैल 24) वायदा की कीमतों के 1580-1670 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में घटती आपूर्ति के कारण कॉटनसीडऑयलकैक (जून) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। कपास के उत्पादन में गिरावट से कपास के बीज के उत्पादन में भी कमी आने की संभावना है। कॉटनसीडऑयलकैक खली की कीमतें 2650-2930 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

वर्ष 2023 में मॉनसून के शुष्क दौर की बढ़ती संभावनाओं के कारण ग्वारसीड (जून) वायदा के तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। शुष्क मानसून से वर्ष 2023 में ग्वारसीड की बुवाई की प्रगति और उपज पर सीधे प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेकिन किसानों के पास भारी स्टॉक होने और कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी के कारण ग्वारगम के कमजोर निर्यात से ग्वार में बढ़त सीमित रहने की संभावना है। ग्वारसीड की कीमतें निकट भविष्य में 5400-6000/6200 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि ग्वारगम की कीमतें 10500-12500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

भारत से मेन्थॉल के निर्यात में गिरावट की खबरों के कारण मेन्था ऑयल वायदा (मई) की कीमतों में गिरावट होने की संभावना है। भारत ने अप्रैल-22-फरवरी-23 की समयावधि के दौरान लगभग 11887 टन मेन्थॉल का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 18386 टन निर्यात हुआ था। इसके अलावा, बुवाई में सुधार से भी कीमतों पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में हुई बारिश बुवाई गतिविधियों के लिए मददगार साबित हुई है। मई में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान मेन्था की बुवाई गतिविधियों के लिए सहायक होगा। मेन्था ऑयल की कीमतों के 945-1000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

जुलाई-अगस्त में मौसम की बढ़ती चिंताओं के कारण अरंडी वायदा (जून) की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। लेकिन अरंडी तेल के अधिक उत्पादन और सीमित निर्यात मांग से कीमतों पर दबाव रहेगा। वर्ष 2023 में कुल उत्पादन 18.82 लाख टन होने का अनुमान है जो साल-दर-साल 16% अधिक है। अरंडी (जून) वायदा की कीमतों को 5800 के स्तर पर सपोर्ट बने रहने की संभावना है और निकट अवधि में 6400 के स्तर पर रेंजिस्टेंस रह सकता है।

सर्पफा

पिछले हफ्ते सोने की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं, जबकि चांदी की कीमतों में एक दिन के कारोबार में 78120 के उच्च स्तर से 73045 तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर सूचकांक की मजबूती के कारण कीमती धातुओं को बिकवाली हुई। चांदी की कीमतों में गिरावट में चीन में कमजोर आर्थिक सुधार की चिंता भी जिम्मेदार रही है, जो औद्योगिक धातुओं का एक प्रमुख उपभोक्ता है। इसके अलावा, लगातार आर्थिक भय और अमेरिकी ऋण सीमा को लेकर गतिरोध ने भी बुलियन की अधिक गिरावट को सहायता दिया। निवेशक चल रही अमेरिकी ऋण वार्ताओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी पर रोक की उम्मीद कर रहे हैं। यद्यपि बाजार का अनुमान है कि फेड शायद दरों के मौजूदा स्तर पर लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन व्यापारियों को अभी भी दर बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शीर्ष सांसदों के बीच ऋण सीमा को लेकर बैठक अगले सप्ताह की शुरुआत तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जिससे बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे कीमती धातुओं में कुछ मुनाफावसूली हुई है, जिससे कीमतों में गिरावट हुई है। बाजार वर्तमान समय में जून में फेड दरों को मौजूदा स्तर पर बरकरार रहने का 89.9% अनुमान लगा रहा है। तकनीकी मोर्चे पर, कोमेक्स में सोने की कीमतों को 2050 डॉलर के पास मजबूत रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और 2000 डॉलर के स्तर के पास सपोर्ट ले रहा है। 2000 डॉलर के स्तर से नीचे जाने पर कीमतों में 1980 डॉलर तक गिरावट हो सकती है। दूसरी ओर चांदी की कीमतें 22,650-25,300 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इस सप्ताह में सोने की कीमतों में बिकवाली का दबाव जारी रह सकता है, जहां इसे 59500 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 62000 के पास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी की कीमतें 70000-77000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथे साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं अमेरिका और चीन में नए सिरे से आर्थिक चिंताओं के कारण इंधन की मांग में वृद्धि को लेकर आशंका बढ़ती जा रही है। इस सप्ताह दोनों बेंचमार्क में लगभग 1.1% की गिरावट हुई है, जो नवंबर 2021 के बाद से सबसे अधिक समय तक होने वाली साप्ताहिक गिरावट है। अमेरिकी सरकार की ऋण सीमा पर बातचीत ठप होने और एक अन्य क्षेत्रीय बैंक के संकट में होने की आशंका के कारण इस बात की चिंता बढ़ रही है कि अमेरिका मंदी में प्रवेश करेगा। चीन में व्यवसायों के लिए नए ऋणों में गिरावट और पहले सप्ताह में कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने कोविड प्रतिबंधों से इसकी रिकवरी को लेकर संदेह को फिर से बढ़ा दिया, जिससे तेल की मांग में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के कमजोर मुद्रास्फीति आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मांग कमजोर है। तेल विकास को लेकर संवेदनशील कमोडिटी है, जो मंदी के कारकों से प्रभावित है। अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी द्वारा कीमतों में गिरावट के बाद अमेरिकी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए तेल पुनर्खरीद करने की संभावना के बयान के कारण कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि जब कीमतें लगातार 67 डॉलर से 72 डॉलर प्रति बैरल पर या उससे कम होंगी तो वह तेल खरीदेगी। इस सप्ताह के आगे कीमतों में बिकवाली का दबाव जारी सकता है। इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बिकवाली की सलाह दी जाती है और कीमतों के 5600-6200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। कम मांग के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में लगभग स्थिरता रही, जिसके आने वाले दिनों में कमजोर रहने की संभावना है। 11-17 मई तक अमेरिका के लिए मौसम पूर्वानुमान से पता चलता है कि देश भर में कई मौसम प्रणालियों एक साथ सक्रिय है, जिससे भारी बारिश और आंधी रहने का अनुमान है। लेकिन तापमान के सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप नेचुरल गैस की हल्की मांग होगी। आगे सप्ताह में कीमतों में साइडवेज उतार-चढ़ाव जारी रहेगा और कीमतें 160-200 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



बेस मेटल

वैश्विक मंदी के बढ़ते डर, शीर्ष उपभोक्ता चीन में सुस्त मांग और आपूर्ति में सुधार से बाजार पर दबाव बढ़ने के कारण बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में आक्रामक सख्ती की प्रक्रिया में ठहराव के संकेत के बाद डॉलर में नरमी के कारण शॉर्ट कवरींग से इनकार नहीं किया जा सकता है। औद्योगिक धातुओं की खपत दूसरी तिमाही, जो पारंपरिक रूप से अधिक मांग का मौसम है, में कम रही है, जो धीमी आर्थिक सुधार और सुस्त निर्यात बाजार के कारण हुआ है। पिछले सप्ताह कुछ कमजोर आँकड़ों ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सुस्त आर्थिक रिकवरी का चला चलता है जिससे धातुओं की बढ़ती आपूर्ति के बीच मांग के आउटलुक को लेकर चिंता बढ़ गई। तांबे की कीमतें 710-740 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एंटाइक द्वारा सर्वेक्षण किए गए 11.12 मिलियन टन की कुल क्षमता वाले 22 स्मेल्टरों का उत्पादन पिछले महीने कुल 886,700 टन था, जो एक साल पहले की तुलना में 18.5% अधिक है। एलएमई गोदामों में तांबे का भंडार हाल ही में लगभग दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जिंक की कीमतें 218-235 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लेड की कीमतें 176-186 के दायरे में कारोबार कर सकती है। आईएलजेडएसजी के अनुसार विश्व स्तर पर रिफाइंड लेड की मांग 2023 में आपूर्ति से 20,000 टन अधिक हो जाएगी। एल्युमीनियम की कीमतें 195-210 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लंदन मेटल एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार एक्सचेंज के साथ पंजीकृत गोदामों में रूसी एल्युमीनियम के स्टॉक का हिस्सा मार्च के 53% से अप्रैल में कुल का 52% या 256,125 टन तक कम हो गया। एलएमई के गोदामों में एल्युमीनियम का कुल स्टॉक इस साल अब तक 27% बढ़कर 570,150 टन हो गया है। कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन (जून) की कीमतें 44500-47000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।


विश्व स्तर पर सोने की मांग.....केन्द्रीय बैंकों का विश्वसनीय रिजर्व

भू-राजनीतिक अनिश्चितता, महामारी से संबंधित परिस्थिति और वैश्विक आर्थिक मंदी के संकट के समय में अपने पैसे को निवेश करने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सोना हमेशा से निवेशकों के बीच प्रमुख पसंद होती है। वैश्विक स्तर पर मौजूदा संकट और अनिश्चितता के दौर में वैश्विक केंद्रीय बैंकों के लिए भी सोना सबसे विश्वसनीय रिजर्व बन गया है। भू-राजनीतिक संकट, आपूर्ति श्रृंखला की कठिनाइयाँ और बढ़ती मुद्रास्फीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला है और निवेशकों की रुचि फिर से बढ़ी है, जिससे अप्रैल में सोने की कीमतें थोड़े ही समय के लिए 2,080 अमरीकी डालर प्रति औंस पर पहुंच गई।

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 के पहले तीन महीनों में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग में गिरावट हुई है क्योंकि केंद्रीय बैंकों और चीनी उपभोक्ताओं द्वारा बड़ी खरीद के बावजूद निवेशकों की ओर से कम खरीद हुई है।
- डब्ल्यूजीसी के अनुसार कुल मांग 2022 की पहली तिमाही से 13% कम होकर 1,081 टन रही है।
- सोने की लगभग आधी मांग ज्वैलरों की ओर से हुई है, जबकि शेष में से अधिकांश की खरीददारी निवेशकों और देशों की ओर से हुई है।
- डब्ल्यूजीसी के अनुसार पहली तिमाही के दौरान केंद्रीय बैंकों ने 228 टन सोना खरीदा, जो जनवरी-मार्च की किसी भी अवधि से अधिक है। यह 2022 की पहली तिमाही में इनके द्वारा की गई खरीदी से 176% अधिक है, जो मजबूत मांग का संकेत है।
- चीन में आभूषणों की मांग 198 टन थी, जो कि 2015 की पहली तिमाही के बाद से किसी भी तिमाही में सबसे अधिक है, क्योंकि कोविड-19 के अंत में उपभोक्ता खर्च पर नियंत्रण बढ़ा है।
- बैंकिंग और आर्थिक उथल-पुथल से चिंतित अमेरिकी खरीदारों ने इस बीच 32 टन सोने की बार्स और सिक्के खरीदे, जो 2010 के बाद से किसी भी तिमाही से सबसे अधिक है।
- डब्ल्यूजीसी ने कहा कि यूरोप में सोने के बार्स और सिक्कों की खरीदारी कम हो गई, और भारत में आभूषणों की मांग भी तीन साल के निचले स्तर पर आ गई और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने भी सोने की बिक्री की।
- आपूर्ति देखा जाय तो, पहली तिमाही में 1,174 टन की मामूली वृद्धि हुई, खदान उत्पादन में मामूली 2% की वृद्धि हुई और सोने की ऊंची कीमत के कारण पुनर्चक्रण में 5% की वृद्धि हुई।

भारत में सोने की मांग

- कीमतों में अधिक अस्थिरता और सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण जनवरी-मार्च 2023 में भारत में सोने की मांग 17 प्रतिशत घटकर 112.5 टन रह गई।
- भारत में मुख्य रूप से घरेलू सोने की कीमतों में 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक होने और कीमतों में निरंतर अस्थिरता के कारण जनवरी-मार्च 2023 के दौरान आभूषणों की कुल मांग पिछले वर्ष की समान अवधि के 94.2 टन की तुलना में 17 प्रतिशत घटकर 78 टन रह गई।



- पिछले वर्ष की समान अवधि के 41.3 टन की तुलना में 2023 की पहली तिमाही में कुल निवेश मांग 17 प्रतिशत घटकर 34.4 टन रह गई।
- पहली तिमाही में देश में सोने का कुल पुनर्चक्रण 25 प्रतिशत बढ़कर 34.8 टन हो गया, जबकि पिछले साल समान अवधि में 27.8 टन हुआ था।
- पहली तिमाही के दौरान कुल शुद्ध बुलियन आयात 134 टन था, जो 2022 की समान अवधि के समान था।

बाजार की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निवेश की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति और बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों के बीच सोने की मांग बढ़ने की संभावना है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट्री द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।